

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी पुरामें मशीन के द्वारा अंकित कुल 100 एक रोपने है यह मापी पुराम श्री.....रामेश्वर..... सहायक अधिकारी ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अवर प्रमण्डल.....रामेश्वर..... को निर्गत किया जाता है।

१३१८/८
कार्यपालक अधिकारी
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, बघुबमी
३००९१२०

Sch. XLV—Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 2392

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of work— 1
 Situation of work—
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|-------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| | | | | | 1st on A e Bill |

Name of work: - Construction of road from B2 to Bharatkhola to Dih to under MMGSy (sc)
 $L = 0.947 \text{ km.}$

Name of Agency: - Sri Shubden Singh
 At Post - Fulwaria, Paru
 Muzaffarpur.

Agreement No - 58 SBD/2020-21

Date of Start - 15/07/2020

Date of Completion - 14/11/2021 (As Agmt)

Work done

1) Cleaning & Gravelly road land -

$$5 \times 30.00 \times 3.50 \text{ m}^2 = 525.00 \text{ m}^2$$

$$5 \times 30.00 \times 3.50 \text{ (buy)} = 525.00 \text{ "}$$

$$5 \times 30.00 \times 3.50 \text{ (buy)} = 525.00 \text{ "}$$

$$5 \times 30.00 \times 3.50 \text{ (buy)} = 525.00 \text{ "}$$

$$5 \times 30.00 \times 3.50 \text{ (buy)} = 525.00 \text{ "}$$

$$5 \times 30.00 \times 3.50 \text{ (buy)} = 525.00 \text{ "}$$

$$1 \times 30.00 \times 3.50 \text{ (buy)} = 105.00 \text{ "}$$

$$1 \times 17.00 \times 3.50 \text{ (buy)} = 59.50 \text{ "}$$

$$3314.50 \text{ m}^2$$

Continuation \Rightarrow 0.33 Hect.

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|---|-------------------------------|----|----|----|------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| <u>Absence of Coal</u> | | | | | |
| 1) Clearing & Grading Land | | | | | |
| By road Tarp P(1) Sheet(1) | | | | | |
| 0.33 Hect @ Rs 51133 = 16/ - | | | | | → Rs 16,874/- |
| 2) Fixing Benchmark pillar | | | | | |
| By road Tarp P(2) Sheet(2) | | | | | |
| 8 Nos. @ Rs 9370 = 108 → Rs 13,961 = 0 | | | | | |
| 3) Construction of embankment | | | | | |
| From Barnafite | | | | | |
| By road Tarp P(2) Sheet(3) | | | | | |
| (Load - 1000 m ³) | | | | | |
| 314.42 m ³ @ Rs 145 = 22 / m ³ | | | | | → Rs 55093 = 0 |
| (Load - 100 m ³) | | | | | |
| 1257.66 m ³ @ Rs 140 = 13 / m ³ | | | | | → Rs 176236 = 0 |
| 4) Excavation for air | | | | | |
| By road Tarp P(3) Sheet(4) | | | | | |
| 58.20 m ³ @ Rs 269 = 32 / m ³ | | | | | → Rs 15,674/- |
| 5) Road for mining haul | | | | | |
| By road Tarp P(3) Sheet(5) | | | | | |
| 88.24 m ³ @ Rs 151 = 63 / m ³ | | | | | → Rs 45094/- |

Continuation

c/o Rs 327,932/-

Sch. XLV—Form No. 134

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|--|-------------------------------|----|----|----|-------------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| 6) Poo. Poo/Roo masonry Substr. | | | | | |
| Q) Any rate Ton for P. (3) at w (6) | | | | | |
| 61.58 m ³ @ Rs 6237 = Rs/m ³ | | | | | |
| | | | | | Rs 384,082 = |
| 7) Poo. & levelling 1000 mm due MP & H. pipe | | | | | |
| Q) Any rate Ton for P. (3) at w (7) | | | | | |
| 12.50 m ³ @ Rs 3773 = Rs/m ³ | | | | | |
| | | | | | Rs 47,164 = |
| 8) Construction G.S.B. part | | | | | |
| Q) Any rate Ton for P. (8) at w (8) | | | | | |
| 712.80 m ³ @ Rs 2841 = Rs/m ³ | | | | | |
| | | | | | Rs 20,256 = |
| 9) Poo. & Fixing Infrastruc Sipon Board with Logo | | | | | |
| Q) Any rate Ton for P. (9) at w (9) | | | | | |
| 2 dnos. @ Rs 10648 = Rs 21,298 = | | | | | |
| | | | | | Rs 28,06,083 = |
| Add 12% GST — | | | | | Rs 336,730 = |
| Add 1% Labours — | | | | | Rs 3,806 = |
| | | | | | Rs 31,70,874 = |
| Less 0.25% Adjustm | | | | | Rs 1,96 = |
| | | | | | Rs 31,61,678 = |
| 2/2 31/31/22 AE. | | | | | 2/2 31/31/22 J.E. |

Continuation